

/149194/2023

संख्या- 149194/XXIV-2/23-07(08)2011

प्रेषक,

रविनाथ रामन,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा,

उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषय-विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों/विद्यालयों हेतु सृजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों (मृत संवर्ग) को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-03(02)/29/23742/आउटसोर्स/2022-23, दिनांक-13.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों/विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी/स्वच्छक के कुल स्वीकृत 7881 पदों के सापेक्ष रिक्त 4331 पदों (मृत संवर्ग) में से न्यून आवश्यकतानुरूप 2364 पदों को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करते हुये उक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिकानुसार राज्य/मण्डल/जनपद/विकासखण्ड कार्यालयों तथा राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों के कार्यालयों/विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी/स्वच्छक के 2364 पदों को प्रस्तर 03 में वर्णित शर्तों के अधीन आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(क) विद्यालयी शिक्षा के राज्य/मण्डल/जनपद/विकास खण्ड कार्यालयों हेतु-

क्र० स०	कार्यालय का नाम	पूर्व में स्वीकृत नियमित पदों के प्रति आउटसोर्सिंग हेतु प्रस्तावित पद			अभ्युक्ति
		परिचारक	स्वच्छक/ सह चौकीदार	योग	
1	महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड	1	1	2	04 पद पूर्व में आउटसोर्स के स्वीकृत हैं।

/149194/2022

	निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड	1	2	3	06 पद पूर्व में आउटसोर्स के स्वीकृत हैं।
3	निदेशालय (प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड	1	2	3	05 पद पूर्व में आउटसोर्स के स्वीकृत हैं।
4	निदेशालय (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड	1	1	2	03 पद पूर्व में आउटसोर्स के स्वीकृत हैं।
5	एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड	4	2	6	—
6	बोर्ड कार्यालय रामनगर, नैनीताल	10	2	12	—
7	मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊं मण्डल नैनीताल	4 (2x2)	2 (2x1)	6	—
8	मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊं मण्डल नैनीताल	4 (2x2)	2 (2x1)	6	—
9	समस्त डायट उत्तराखण्ड	13 (13x1)	13 (13x1)	26	—
10	समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड	13 (13x1)	13 (13x1)	26	—
11	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0) उत्तराखण्ड	13 (13x1)	13 (13x1)	26	—
12	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड	13 (13x1)	13 (13x1)	26	—
13	समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उत्तराखण्ड	0	95 (95x1)	95	—
14	समस्त उप शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उत्तराखण्ड	0	95 (95x1)	95	—
क- योग		334			

/149194/2023

(ख) राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज हेतु—

क्र० स०	राजकीय विद्यालयों में आउटसोर्सिंग हेतु पदों के नवीन आवंटन का विवरण	पूर्व में स्वीकृत नियमित पदों के प्रति आउटसोर्सिंग हेतु प्रस्तावित पद					अभ्युक्ति
		परिचारक	स्वच्छक/ सह चौकीदार	योग	विद्यालयों की संख्या	कुल योग	
1	1000 छात्र संख्या से अधिक प्रत्येक इण्टर कालेज में	2	1	3	11	33	—
2	500 से 1000 छात्र संख्या तक प्रत्येक इण्टर कॉलेज में	1	1	2	62	124	—
3	500 छात्र संख्या से नीचे प्रत्येक इण्टर कॉलेज में	0	1	1	1108	1108	—
4	प्रत्येक राजकीय हाईस्कूल में	0	1	1	722	722	—
5	नवीन उच्चकृत विद्यालय जिनमें चतुर्थ श्रेणी व स्वच्छक के पद सृजित नहीं है	0	1	1	43	43	—
	ख-योग	2030					
	महायोग (क+ख)	334+2030 = 2364					

- 3—(1) स्वीकृत 2364 पदों के सापेक्ष कर्मचारियों को आउटसोर्स पी0आर0डी0 अथवा उपनल (UPNL) से न रखते हुए, सेवा का आउटसोर्स के रूप में खुले बाजार/प्रतियोगी व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेन्सी के माध्यम से लिया जायेगा एवं विभाग द्वारा उक्त हेतु होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित एजेन्सी को किया जायेगा न कि सम्बन्धित को।
- (2) उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिक सेवायोजित किये जाने में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-111, दिनांक-27.04.2018 सपठित शासनादेश संख्या-167, दिनांक-14.06.2018 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-379, दिनांक-29.10.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने सम्बन्धी कार्मिक

/149194/2023

अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-426/XXX(2)/2012-3(2)/2000 दिनांक 25 मई, 2012 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर-3 व प्रस्तर-4 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स से कार्मिकों को सेवायोजित करने में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (4) उक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (5) आउटसोर्स के माध्यम से स्वच्छक/सह चौकीदार/परिचारक के पद पर नियुक्त कार्मिकों को रु0 15,000/- (समस्त कर सहित) प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-148948/XXVII(7)2023 दिनांक-23.08.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath

Date: 24-08-2023 16:38:08

(रविनाथ रामन)

सचिव।

संख्या-149194/XXIV-2/2023-07(08)2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
3. सचिव, वित्त विभाग (अनुभाग-7), उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Vikash Kumar
Srivastava

Date: 24-08-2023 16:54:37

(विकास कुमार श्रीवास्तव)

अनु सचिव।